



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 599]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2001/अग्रहायण 8, 1923

No. 599]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2001/AGRAHAYANA 8, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2001

सा. का. निं. 871(अ).—केन्द्रीय सरकार, आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 (2001 का 9) की धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवेदन करना (अनुसूची से संगठन का हटाया जाना) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अध्यादेश” से आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 (2001 का 9) अभिप्रेत है;

(ख) “धारा” से अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है;

(ग) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अध्यादेश में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अध्यादेश में हैं।

3. आवेदन करना—

(1) अनुसूची में किसी आतंकवादी संगठन के रूप में किसी संगठन को सम्मिलित किए जाने से प्रभावित कोई व्यक्ति या संगठन केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(2) अनुसूची में सूचीबद्ध किसी संगठन द्वारा, अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में किसी संगठन को

सम्मिलित किए जाने से प्रभावित किसी संगठन को पदाधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षर करके आवेदन किया जा सकेगा।

4. आवेदन फाइल करने और उसका निपटान करने के लिए प्रक्रिया

(1) केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक अपील, प्रभावित व्यक्ति या संगठन के किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को संबोधित होगी और व्यक्तिगत रूप से उस अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उसको भेजी जाएगी।

(2) अपील के ज्ञापन में, संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न शीर्ष के नीचे बिना किसी तर्क या वृत्तों के अनुसूची में संगठन को सम्मिलित किए जाने के बारे में आक्षेपों के आधार, क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित उन आधारों के साथ, दिए जाएंगे जिन पर अनुसूची से संगठन का नाम हटाए जाने के लिए आवेदन किया गया है।

(3) अध्यादेश की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार किया जाएगा और आवेदन को उसकी प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निपटारा जाएगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा फाइल किया गया आवेदन प्रारूपिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व, संबद्ध पक्षकार को एक विशिष्ट समय के भीतर ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए बुलाएगी और यदि व्यक्ति या संगठन ऐसा करता है तो आवेदन पर विचार किया जाएगा।

- (5) पुनर्विलोकन समिति को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन—  
कोई संगठन, यदि केन्द्रीय सरकार के आदेशों से व्यथित है तो आवेदक द्वारा आदेश के प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर, धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा।

[फा. सं. II-13013/16/2001 विधिक प्रकोष्ठ]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2001

**G.S.R. 871 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h) of sub-section (2) of section 61 of the Prevention of Terrorism Ordinance, 2001 (9 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Making of Application (Removal of Organisation from the Schedule) Rules, 2001.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) “*Ordinance*” means the Prevention of Terrorism Ordinance, 2001 (9 of 2001);
  - (b) “*Section*” means the section of the Ordinance;
  - (c) All other words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Ordinance shall have the meanings respectively assigned to them in the Ordinance.
3. Making of application :
  - (1) Any person or an organisation affected by the inclusion of the organisation in the Schedule as a terrorist organisation may prefer an appeal to the Central Government.
  - (2) An application may be made by the organisation listed in the Schedule, duly

signed by an office-bearer of the organisation or any person affected by inclusion of the organisation in the Schedule as a terrorist organisation.

#### 4. Procedure for filing and disposal of application :

- (1) Every appeal to the Central Government shall be made in the form of a memorandum signed by the person or an office-bearer of the organisation affected, and shall be addressed to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs and be presented to the officer personally or sent to him by registered post with acknowledgement due.
- (2) The memorandum of appeal shall set forth, concisely and under distinct head, the grounds of objections to the inclusion of the organisation in the Schedule without any argument or narrative; with the grounds numbered consecutively on which the application is made for removal of the name of the organisation from the Schedule.
- (3) The application made under sub-section (1) of section 19 of the Ordinance shall be considered and disposed of with the prior approval of the Central Government within a period of forty-five days from the date of receipt of application.
- (4) If the application filed by a person or an organisation is defective in form, the Central Government shall, before rejecting such application, call upon the party concerned to remove the defects within a particular time, and if he or it does so, the application shall be considered.
5. Application for review to Review Committee : An organisation, if aggrieved by the orders of the Central Government, may make an application for a review to the Review Committee constituted under sub-section (1) of section 59 within one month from the date of receipt of the order by the application.

[F. No. II-13013/16/2001-Legal Cell]

A. K. JAIN, Jt. Secy.